

## सं. 52(ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद                                          | 2022-23  |          |          |          |           |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                                             | ति1      | ति2      | ति3      | ति4      | वार्षिक   |
|                                             | 1        | 2        | 3        | 4        | 5         |
| निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)                 | 337823.4 | 312617.2 | 276148.4 | 463697.5 | 1390286.6 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 5.6      | 5.1      | 4.0      | 6.5      | 5.3       |
| I. वित्तीय आस्तियां                         | 627843.1 | 647735.2 | 730303.2 | 984974.9 | 2990856.5 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 10.3     | 10.6     | 10.7     | 13.9     | 11.5      |
| जिसमें:                                     |          |          |          |          |           |
| 1. कुल जमाराशियां (ए+बी)                    | 182429.1 | 316361.2 | 278233.1 | 341556.0 | 1118579.5 |
| (ए) बैंक जमाराशियां                         | 160172.4 | 298532.7 | 254399.7 | 323570.2 | 1036674.8 |
| i. वाणिज्यिक बैंक                           | 158613.3 | 300565.0 | 248459.8 | 284968.0 | 992606.2  |
| ii. सहकारी बैंक                             | 1559.0   | -2032.4  | 5939.8   | 38602.2  | 44068.7   |
| (बी) गैर-बैंक जमाराशियां                    | 22256.8  | 17828.6  | 23833.5  | 17985.9  | 81904.7   |
| जिसमें से:                                  |          |          |          |          |           |
| अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)                 | 6504.8   | 2076.7   | 8081.6   | 2234.0   | 18897.1   |
| i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां             | 4230.6   | 3267.2   | 3246.9   | 3945.8   | 14690.4   |
| ii. आवास वित्त कंपनियां                     | 2274.2   | -1190.5  | 4834.7   | -1711.8  | 4206.6    |
| 2. जीवन बीमा निधियाँ                        | 73357.5  | 151737.1 | 167581.7 | 156268.5 | 548944.9  |
| 3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)       | 146719.1 | 118171.9 | 136388.4 | 216513.6 | 617793.1  |
| 4. मुद्रा                                   | 66438.9  | -54579.3 | 76760.1  | 148990.1 | 237609.7  |
| 5. निवेश                                    | 104523.4 | 64929.7  | 33972.1  | 64436.1  | 267861.3  |
| जिसमें:                                     |          |          |          |          |           |
| (ए) म्यूचुअल फंड                            | 42171.2  | 42868.8  | 25967.3  | 55506.6  | 166513.9  |
| (बी) इक्विटी                                | 45390.8  | -2858.0  | -22917.3 | -14813.8 | 4801.7    |
| 6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)                | 54375.1  | 51114.5  | 37367.7  | 57210.6  | 200068.0  |
| II. वित्तीय देयताएँ                         | 290019.7 | 335118.0 | 454154.8 | 521277.4 | 1600569.9 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 4.8      | 5.5      | 6.6      | 7.3      | 6.1       |
| ऋण/उधार                                     |          |          |          |          |           |
| 1. वित्तीय निगम (ए+बी)                      | 289781.5 | 334879.7 | 453916.6 | 521039.1 | 1599616.9 |
| (ए) बैंकिंग क्षेत्र                         | 234235.0 | 263450.2 | 370782.9 | 387794.8 | 1256263.0 |
| जिसमें:                                     |          |          |          |          |           |
| i. वाणिज्यिक बैंक                           | 230283.8 | 261265.3 | 368304.6 | 331291.0 | 1191144.8 |
| (बी) अन्य वित्तीय संस्थान                   | 55546.4  | 71429.5  | 83133.7  | 133244.3 | 343353.9  |
| i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ             | 30531.7  | 36650.3  | 55791.7  | 94565.3  | 217539.1  |
| ii. आवास वित्त कंपनियाँ                     | 22336.7  | 33031.2  | 24903.3  | 36745.8  | 117017.0  |
| iii. बीमा कंपनियाँ                          | 2678.0   | 1747.9   | 2438.7   | 1933.2   | 8797.8    |
| 2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार) | 33.7     | 33.7     | 33.7     | 33.7     | 135.0     |
| 3. सामान्य सरकार                            | 204.5    | 204.5    | 204.5    | 204.5    | 818.0     |

## सं. 52(ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद                                          | 2023-24  |           |          |           |           |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                                             | ति1      | ति2       | ति3      | ति4       | वार्षिक   |
|                                             | 1        | 2         | 3        | 4         | 5         |
| निवल वित्तीय आस्तियाँ(I-II)                 | 337132.1 | 310186.9  | 295317.2 | 740393.5  | 1683029.7 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 5.0      | 4.6       | 3.9      | 9.3       | 5.8       |
| I. वित्तीय आस्तियाँ                         | 658810.0 | 836270.0  | 806046.4 | 1291327.9 | 3592454.4 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 9.8      | 12.3      | 10.6     | 16.3      | 12.4      |
| जिसमें:                                     |          |           |          |           |           |
| 1. कुल जमाराशियाँ (ए+बी)                    | 266780.7 | 407942.6  | 296902.1 | 446190.5  | 1417816.0 |
| (ए) बैंक जमाराशियाँ                         | 253104.6 | 501763.1  | 277402.8 | 430204.0  | 1462474.4 |
| i. वाणिज्यिक बैंक                           | 243833.9 | 502260.7  | 280096.7 | 383460.6  | 1409651.9 |
| ii. सहकारी बैंक                             | 9270.7   | -497.6    | -2693.9  | 46743.4   | 52822.6   |
| (बी) गैर-बैंक जमाराशियाँ                    | 13676.2  | -93820.5  | 19499.4  | 15986.5   | -44658.5  |
| जिसमें से:                                  |          |           |          |           |           |
| अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)                 | -485.4   | -107982.1 | 5337.7   | 1824.9    | -101304.9 |
| i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ             | 6119.3   | 4782.3    | 4895.8   | 1942.9    | 17740.3   |
| ii. आवास वित्त कंपनियाँ                     | -6604.7  | -112764.4 | 441.9    | -118.0    | -119045.2 |
| 2. जीवन बीमा निधियाँ                        | 157301.9 | 140356.8  | 160135.2 | 189267.6  | 647061.4  |
| 3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)       | 162762.9 | 147433.0  | 152512.0 | 252959.6  | 715667.6  |
| 4. मुद्रा                                   | -48636.2 | -36700.8  | 56719.0  | 146866.1  | 118248.0  |
| 5. निवेश                                    | 29402.9  | 99734.4   | 81170.7  | 173602.7  | 383910.7  |
| जिसमें:                                     |          |           |          |           |           |
| (ए) म्यूचुअल फंड                            | 44566.7  | 65173.9   | 64486.4  | 110825.1  | 285052.1  |
| (बी) इक्विटी                                | -35221.8 | 5726.6    | -15477.9 | 22524.3   | -22448.9  |
| 6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)                | 91197.8  | 77504.1   | 58607.4  | 82441.4   | 309750.7  |
| II. वित्तीय देयताएँ                         | 321678.0 | 526083.2  | 510729.2 | 550934.3  | 1909424.7 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 4.8      | 7.8       | 6.7      | 7.0       | 6.6       |
| ऋण/उधार                                     |          |           |          |           |           |
| 1. वित्तीय निगम (ए+बी)                      | 321560.7 | 525964.9  | 510611.0 | 550816.1  | 1908952.7 |
| (ए) बैंकिंग क्षेत्र                         | 213647.2 | 868822.7  | 402741.7 | 421973.2  | 1907184.8 |
| जिसमें:                                     |          |           |          |           |           |
| i. वाणिज्यिक बैंक                           | 208026.5 | 875654.0  | 389898.0 | 382557.9  | 1856136.4 |
| (बी) अन्य वित्तीय संस्थान                   | 107913.6 | -342857.7 | 107869.2 | 128842.9  | 1767.9    |
| i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ             | 81448.8  | 59683.7   | 85031.8  | 100836.5  | 327000.7  |
| ii. आवास वित्त कंपनियाँ                     | 23784.0  | -404294.0 | 21233.4  | 25852.9   | -333423.7 |
| iii. बीमा कंपनियाँ                          | 2680.7   | 1752.6    | 1604.0   | 2153.5    | 8190.9    |
| 2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार) | 33.7     | 34.7      | 34.7     | 34.7      | 138.0     |
| 3. सामान्य सरकार                            | 83.5     | 83.5      | 83.5     | 83.5      | 334.0     |

सं. 52(ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद                                          | 2024-25  |          |          |           |           |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                             | ति1      | ति2      | ति3      | ति4       | वार्षिक   |
|                                             | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         |
| निवल वित्तीय आस्तियाँ(I-II)                 | 568179.5 | 521327.5 | 354876.0 | 782732.1  | 2227115.2 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 7.7      | 7.1      | 4.3      | 9.0       | 7.0       |
| I. वित्तीय आस्तियाँ                         | 856644.1 | 925845.5 | 774547.1 | 1243830.1 | 3800866.8 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 11.6     | 12.5     | 9.3      | 14.3      | 11.9      |
| जिसमें:                                     |          |          |          |           |           |
| 1. कुल जमाराशियाँ (ए+बी)                    | 274724.6 | 403467.5 | 157913.7 | 418478.7  | 1254584.5 |
| (ए) बैंक जमाराशियाँ                         | 255088.9 | 388251.6 | 140929.7 | 401919.4  | 1186189.6 |
| i. वाणिज्यिक बैंक                           | 251171.1 | 389734.0 | 147864.7 | 395337.4  | 1184107.2 |
| ii. सहकारी बैंक                             | 3917.8   | -1482.4  | -6934.9  | 6581.9    | 2082.4    |
| (बी) गैर-बैंक जमाराशियाँ                    | 19635.6  | 15215.9  | 16984.0  | 16559.3   | 68394.9   |
| जिसमें से:                                  |          |          |          |           |           |
| अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)                 | 7461.4   | 3041.8   | 4809.8   | 4385.1    | 19698.2   |
| i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ             | 6289.7   | 3230.0   | 4444.5   | 4220.0    | 18184.2   |
| ii. आवास वित्त कंपनियाँ                     | 1171.7   | -188.2   | 365.4    | 165.1     | 1514.0    |
| 2. जीवन बीमा निधियाँ                        | 175176.3 | 178584.5 | 89908.7  | 186639.0  | 630308.4  |
| 3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)       | 169375.0 | 169376.4 | 169915.2 | 280489.5  | 789156.1  |
| 4. मुद्रा                                   | 33989.7  | -57614.7 | 70840.8  | 162235.6  | 209451.4  |
| 5. निवेश                                    | 137776.9 | 178564.4 | 245639.8 | 122472.3  | 684453.4  |
| जिसमें:                                     |          |          |          |           |           |
| (ए) म्यूचुअल फंड                            | 111258.6 | 158830.5 | 149987.7 | 92689.1   | 512765.8  |
| (बी) इक्विटी                                | -120.5   | -17285.9 | 60420.8  | -2661.7   | 40352.7   |
| 6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)                | 65601.6  | 53467.4  | 40329.0  | 73515.0   | 232913.0  |
| II. वित्तीय देयताएँ                         | 288464.6 | 404518.0 | 419671.1 | 461098.0  | 1573751.7 |
| जीडीपी का प्रतिशत                           | 3.9      | 5.5      | 5.0      | 5.3       | 4.9       |
| ऋण/ उधार                                    |          |          |          |           |           |
| 1. वित्तीय निगम (ए+बी)                      | 288285.8 | 404339.2 | 419492.4 | 460919.3  | 1573036.7 |
| (ए) बैंकिंग क्षेत्र                         | 204822.7 | 322195.6 | 320666.3 | 387474.4  | 1235158.9 |
| जिसमें:                                     |          |          |          |           |           |
| i. वाणिज्यिक बैंक                           | 208525.3 | 321241.4 | 302569.3 | 379856.5  | 1212192.4 |
| (बी) अन्य वित्तीय संस्थान                   | 83463.2  | 82143.7  | 98826.1  | 73444.8   | 337877.8  |
| i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ             | 65813.7  | 65488.7  | 75764.5  | 44572.0   | 251639.0  |
| ii. आवास वित्त कंपनियाँ                     | 15125.2  | 14233.6  | 20561.4  | 25756.8   | 75677.0   |
| iii. बीमा कंपनियाँ                          | 2524.2   | 2421.4   | 2500.2   | 3116.0    | 10561.8   |
| 2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार) | 34.7     | 34.7     | 34.7     | 34.7      | 139.0     |
| 3. सामान्य सरकार                            | 144.0    | 144.0    | 144.0    | 144.0     | 576.0     |

टिप्पणियाँ: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय आस्तियों से है, जिन्हें वित्तीय आस्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।  
2. 2024-25 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान।  
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2024-25 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।  
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।  
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।